

Publication : Navbharat Times  
Edition : New Delhi  
Date : August 12, 2011

## रेडी टु ईट फूड



अगर आप खाना बनाने के झंझट में उलझे बिना घर जैसे स्वाद का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो '10 मिन यम मील्ल्स' ट्राई कर सकते हैं। इस रेडी टु ईट रेंज में दाल तड़का, आलू मटर, पालक पनीर, चना मसाला, मेथी मटर और कड़ी पकौड़ा वगैरह लाए गए हैं। प्रत्येक डिश पैक चावल के कॉम्बिनेशन के साथ है। कंपनी के मुताबिक, इसमें रिटॉर्ट टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो खाने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है।